



## केन्द्रीय विद्यालय गांधीग्राम डिंडीगुल

### 10. एक दिन की बादशाहत

#### कठिन शब्द

1. पसंद (like)
2. मुसीबत (trouble)
3. पाबंदी (ban)
4. सपना (dream)
5. मेंढक (frog)
6. तरकीब (shift)
7. खिदमत (service)
8. अधिकार (right)
9. बादाम (almond)
10. हुकम (order)
11. मक्खन (butter)
12. आदत (habit)

#### समानार्थी शब्द

1. दोस्त - मित्र



2. तकरार- लड़ाई



3. अखबार- समाचार पत्र



4. मेहरबानी - कृपा



5. गारत - नष्ट

6. इंतजार - प्रतीक्षा



7. वक्त - समय

8. फौरन - तुरंत



9. सपना - ख्वाब

10. पाबंदियाँ - सीमाएँ



## विलोम शब्द लिखो

1. भारी X हल्का
2. हुक्म X अनुरोध
3. अधूरी X पूरी
4. दोस्त X दुश्मन
5. बाहर X अंदर

## वचन बदलो

1. अंडा - अंडे
2. कमरा - कमरे
3. कमीज- कमीजें
4. अखबार - अखबार
5. कपड़ा - कपड़े
6. दवा - दवाएँ
7. साड़ी - साड़ियाँ

## दिए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए :

1. खाना बनाने वाला - रसोइया
2. नहाने का स्थान - स्नानघर
3. जो बोल न सके - गूँगा
4. जिसे कुछ भी सुनाई न दे - बहरा
5. जिसके पास ज्ञान हो - ज्ञानी

## प्रश्नों के उत्तर लिखिए

1. आरिफ और सलीम की जान मुसीबत में क्यों थी?

उत्तर : आरिफ और सलीम की जान मुसीबत में थी क्योंकि वे अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं कर सकते थे।

2. क्या अब्बा ने उनकी बात मान ली ?

उत्तर : हाँ अब्बा ने उनकी बात मान ली।

3. आरिफ ने दादी को क्या करने से रोका ?

उत्तर : आरिफ ने दादी को बादाम का हरीरा पीने से रोका।

4. सलीम ने अम्मी को क्या करने के लिए कहा?

उत्तर : सलीम ने अम्मी को फिर से दाँत माँजने के लिए कहा ।

5. सलीम ने खाने में क्या- क्या बनाने के लिए खानसामे को आदेश दिया ?

उत्तर: सलीम ने खाने में गुलाब- जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल बनाने के लिए खानसामे को आदेश दिया।

मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करो

1. आँखों का तारा- अतिप्रिय

अप्पू अपनी माँ की आँखों का तारा है।

2. सिर खाना - परेशान करना

बच्चे मेला में जाने के लिए दादी की सिर खा रहे थे।

3. आंखे खुलना - सचेत होना

ठोकर खाने के बाद ही बहुत से लोगों की आंखे खुलती हैं।

4. अकल का दुश्मन - मूर्ख

आजकल तुम अकल के दुश्मन हो गए हो।

5. ईद का चाँद होना - बहुत दिनों बाद दिखाई देना

तुम तो दिखाई ही नहीं देते ; लगता है कि ईद के चाँद हो गए हो।

## रचनात्मक लेखन

### दशहरा के बारे में लिखो:सह



दशहरा को दुर्गा पूजा के नाम से भी जाना जाता है।

यह त्योहार वर्षा ऋतु के अंत में मनाया जाता है।

यह दस दिनों का त्योहार है।

दशमी के दिन त्योहार की समाप्ति होती है।

इस दिन को विजयदशमी कहते हैं।

रावण का पुतला इस दिन समूचे देश में जलाया जाता है।

